

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 03.06.21

थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 75 लाख रूपये की कीमत की डेढ किलो अफीम के साथ मादक पदार्थ तस्कर नजीम गिरफ्तार ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के कुशल नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 02.06.21 की रात्रि थाना कटरा की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, चौकिंग के दौरान समय करीब 21.50 बजे कसरक फाटक के पास से चौकिंग के दौरान अभियुक्त नजीम पुत्र रियाज निवासी मो0 केलरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को कुल डेढ किलो अफीम व 01 मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। अभियुक्त से पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश मे आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. नजीम पुत्र रियाज निवासी मो0 केलरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 किलो 500 ग्राम अफीम (अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 75 लाख रूपये।)

आपराधिक इतिहास:-

1. नजीम पुत्र रियाज निवासी मो0 केलरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 270/2021 धारा 8/18 NDPS.ACT एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0

विवरण पूछताछ:-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं आस पास के जनपदों से खेती करने वाले किसानों से बची हुई अफीम खरीदकर पंजाब में सड़क किनारे ढाबों पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है। आज मैं इसे पंजाब बेचने जाने के लिए ही फाटक पर बस का इन्तजार कर रहा था कि आपके द्वारा पकड लिया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रवीन सोलंकी प्रभारी निरीक्षक कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 मनोज कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
3. हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
4. का0 2139 विनित कुमार थाना कटरा जनपद शाह0